

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 1977/आषाढ़ 20, 1899

No 295] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 1977/ASADHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 11th July 1977

S.O. 546 (E).—In exercise of the powers conferred by clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961 I, S.K. Palit, Jute Commissioner, hereby fix with immediate effect the prices mentioned in the schedule appended to this Order as the maximum prices above which raw jute and mesta of different varieties and grades specified in the said schedule shall not be purchased and sold at Calcutta until further Orders.

Maximum prices fixed for different varieties and grades of jute and mesta at Calcutta.

Rs. per quintal

Name of region	Variety	GRADE							
		W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8
		TD-1	TD-2	TD-3	TD-4	TD-5	TD-6	TD-7	TD-9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
West Bengal	White	260.00	250.00	239.00	229.00	219.00	210.00	201.00	193.00
	Tossa	270.50	260.50	249.50	239.50	229.50	220.50	212.50	203.50
Other States	White	266.00	256.00	245.00	235.00	225.00	216.00	207.00	199.00
	Tossa	276.50	266.50	255.50	245.50	235.50	226.50	218.50	209.50

Name of region	Vareity	Ordinary Top	Special Middle	Middle	Bottom	B. Bottom	X-Bottom
1	2	3	4	5	6	7	8
Assam	Mesta	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
Agartala	Do.	242.50	232.50	222.50	212.50	195.50	192.50
Bihar Desal	Do.	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
Bihar/Selected Bihar	Do.	226.50	216.50	206.50	196.50	197.50	176.50
Kishanganj	Do.	239.50	229.50	219.50	209.50	192.50	189.50
Chakia	Do.	224.00	214.00	204.00	194.00	177.00	174.00
Cuttack	Do.	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
Balasore	Do.	223.50	213.50	203.50	193.50	176.50	173.50
Northern	Do.	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
South-Northern	Do.	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
West Bengal Desal	Do.	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
Selected Murshidabad	Do.	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
Murshidabad	Do.	226.50	216.50	206.50	196.50	179.50	176.50
Dausee	Do.	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
Andhra Pradesh Bimli	Do.	225.00	215.00	205.00	195.00	178.00	175.00

NOTE.—The varieties of mesta specified above include similar varieties of mesta under different trade name/nemes.

[No 8,2/7; -Jute]

S. K. PALIT, Jute Commissioner.

वाणिज्य मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 11 जुलाई, 1977

का० आ० 546(अ).—पटसन (लाइसेंस और नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम के पालित, पटसन आयुक्त, इस आदेश में उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित कीमतों को तत्काल प्रभाव से अधिकतम कीमतों के रूप में एतद्वारा नियत करता हूँ, जिनसे अधिक पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का कच्चा पटसन आगामी आदेश होने तक कलकत्ता में क्रय या विक्रय नहीं किया जायेगा।

कलकत्ता में कच्चे पटमन एवं मेस्ता की विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों के लिये निर्धारित अधिकतम मूल्य

रुपया प्रति क्विंटल

श्रेणियाँ

क्षेत्र का नाम

किस्म

श्वेत 1 श्वेत 2 श्वेत 3 श्वेत 4 श्वेत 5 श्वेत 6 श्वेत 7 श्वेत 8
तोदे 1 तोदे 2 तोदे 3 तोदे 4 तोदे 5 तोदे 6 तोदे 7 तोदे 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

एक्स-पश्चिम बंगाल

श्वेत

तोसा

260.00 250.00 239.00 229.00 219.00 210.00 201.00 193.00

270.50 260.50 249.50 239.50 229.50 220.50 212.50 203.50

एक्स-अन्य राज्य

श्वेत

तोसा

266.00 256.00 245.00 235.00 225.00 216.00 207.00 199.00

276.50 266.50 255.50 245.50 235.50 226.50 218.50 209.50

प्रदेश का नाम	किस्म	साधारण सर्वोत्तम	विशेष मध्यम	मध्यम	निम्नतम	ख. निम्नतम	एक्स-निम्नतम			
1	2	3	4	5	6	7	8			
आसाम	.	.	.	मेस्ता	237.00 ^२	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
अगरतला	.	.	.	"	242.50	232.50	222.50	212.50	195.50	192.50
विनार देशी	.	.	.	"	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
बिहार/चयनित बिहार	.	.	.	"	226.50	216.50	206.50	196.50	179.50	176.50
कियनगंज	.	.	.	"	239.50	229.50	219.50	209.50	192.50	189.50
चाकिया	.	.	.	"	224.00	214.00	204.00	194.00	177.00	174.00
कटक	.	.	.	"	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00.
बालसोर	.	.	.	"	223.50	213.50	203.50	193.50	176.50	173.50
उत्तरी	.	.	.	"	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
भद्र-उत्तरी	.	.	.	"	237.00	227.00	217.00	207.00	190.00	187.00
पश्चिम बंगाल देशी	.	.	.	"	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
चयनित मुर्शीदाबाद	.	.	.	"	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50

1	2	3	4	5	6	7	8
मुर्शिदाबाद	मेस्ता	226.50	216.50	206.50	196.50	179.50	176.50
देमी	„	234.50	224.50	214.50	204.50	187.50	184.50
आन्ध्र प्रदेश बिमली	„	225.00	215.00	205.00	195.00	178.00	175.00

नोट—ऊपर निर्दिष्ट मेस्ता की किस्मों में भिन्न व्यापार नाम/नामों वाली मेस्ता की मिलती जुलती किस्में शामिल हैं।

[सं० 8 2 77-पटसन]

एस० के० पालित, पटसन आयुक्त।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD.
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977